

राजस्थान लोक सेवा आयोग - रणनीति

रणनीति की आवश्यकता क्यों?

- राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.), अजमेर द्वारा आयोजित सर्वाधिक लोकप्रथि 'आर.ए.एस.-आर.टी.एस.' परीक्षा में सफलता सुनिश्चिति करने के लिये उसकी प्रकृति के अनुरूप उचित एवं गतशील रणनीति बिनाने की आवश्यकता है।
- यह वह प्रथम प्रक्रिया है जिससे आपकी आधी सफलता प्रारम्भ में ही सुनिश्चिति हो जाती है।
- ध्यातव्य है कि यह परीक्षा सामान्यतः तीन चरणों (प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार) में आयोजिती की जाती है, जिसमें प्रत्येक अगले चरण में पहुँचने के लिये उससे पूर्व के चरण में सफल होना आवश्यक है।
- इन तीनों चरणों की परीक्षा की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। अतः प्रत्येक चरण में सफलता सुनिश्चिति करने के लिये अलग-अलग रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

प्रारम्भिक परीक्षा की रणनीति:

- अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों की भाँति राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में भी प्रश्नों की प्रकृतिवस्तुनिष्ठि (बहुविकल्पीय) प्रकार की होती है। अतः इसमें तथ्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे- 'फोटो वोलटीय सेल' कसि प्रकार की ऊर्जा से सम्बंधित है?, संविधान में मौलिक करतत्वों को कब सम्मिलित किया गया?, राजस्थान के इतिहास में 'पट्टा रेख' से क्या अभिप्राय है? इत्यादि।
- इस परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठि प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके लिये अधिकतम 200 अंक निर्धारित हैं। इन प्रश्नों का उत्तर अधिकतम तीन घंटे की समय सीमा में देना होता है।
- सभी प्रश्नों के अंक समान होने तथा गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक अंकन (Negative marking) के प्रावधान (प्रत्येक गलत उत्तर के लिये एक तहिई (1/3) अंक काटे जाते हैं) होने के कारण अभ्यरथियों से अपेक्षा है कि तुक्का पद्धति से बचते हुए सावधानीपूर्वक प्रश्नों को हल करें।
- ऋणात्मक अंकन का प्रावधान होने के कारण इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये सामान्यतः 40-50% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, कनितु कभी- कभी प्रश्नों के कठनिई स्तर को देखते हुए यह प्रतिशित और भी कम हो सकता है। जैसे- वर्ष 2018 की आर.पी.एस.सी. की प्रारंभिक परीक्षा का 'कट-ऑफ' 76.6 अंक रहा जो 40% से भी कम है।
- आर.पी.एस.सी. की प्रारंभिक परीक्षा में 'सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान' के पाठ्यक्रम में मुख्यतः राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा एवं वरिसत; भारत का इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास); भूगोल (भारत, विश्व एवं राजस्थान का भूगोल); भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था; अरथशास्त्रीय अवधारणाएँ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अरथव्यवस्था; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विविचन एवं मानसिक योग्यता तथा समसामयिक घटनाएँ शामिल हैं। इसका विस्तृत विविचन पाठ्यक्रम (syllabus) शीर्षक के अंतर्गत किया गया है।
- सर्वप्रथम प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का अध्ययन करें एवं उसके समस्त भाग एवं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुविधा एवं रूचि के अनुसार वरीयता क्रम निर्धारित करें।
- विंगत 5 से 10 वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सूक्ष्म अवलोकन करें और उन बहुओं तथा शीर्षकों पर ज्यादा ध्यान दें जिससे विंगत वर्षों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्तता ज्यादा रही है।
- इस परीक्षा के पाठ्यक्रम और विंगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इसके कुछ खण्डों की गहरी अवधारणात्मक एवं तथ्यात्मक जानकारी अनविवार्य है।

- उपरोक्त से स्पष्ट है कि आर.पी.एस.सी. की इस प्रारम्भिक परीक्षा में राजस्थान राज्य विशेष से लगभग 40% प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः इस परीक्षा में सफलता के लिये राजस्थान राज्य विशेष का अध्ययन मानक पुस्तकों और समाचार पत्रों व इन्टरनेट के द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- इन प्रश्नों को याद रखने और हल करने का सबसे आसान तरीका है कि विषय की तथ्यात्मक जानकारी से सम्बंधित संक्षेपित नोट्स बना लिये जाएँ और उनका नियमित अध्ययन किया जाये। जैसे - भारतीय दर्रों से सम्बंधित एक प्रश्न पूछा गया कि 'शिपिकी लौं दर्रा' किसी राज्य में स्थिति है? इसकी तैयारी के लिये आपको भारत के प्रमुख दर्रे एवं सम्बंधित राज्य की एक सूची तैयार कर लेनी चाहिये।
- तारकिक विविचन एवं मानसिक योग्यता से सम्बंधित प्रश्नों का अभ्यास पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को विभिन्न खंडों में वर्गीकृत कर के किया जा सकता है।
- विज्ञान आधारित प्रश्नों को हल करने के लिये 'सामान्य विज्ञान- लूसेंट' की कठिनाई सहायक हो सकती है।
- सामान्य अध्ययन के शेष खंडों के लिये कक्षा-11 एवं कक्षा-12 की एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों का अध्ययन करना लाभदायक रहता है। इसके लिये बाजार में उपलब्ध किसी स्तरीय नोट्स का भी अध्ययन किया जा सकता है।
- आर.पी.एस.सी. की प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृतिको देखते हुए पूरे पाठ्यक्रम का राजस्थान राज्य के सन्दर्भ में अध्ययन करना लाभदायक रहता है।
- इस परीक्षा में राज्य विशेष एवं समसामयिक घटनाओं से पूछे जाने वाले प्रश्नों की आवृत्तिज्यादा होती है, अतः इनका नियमित रूप से गंभीर अध्ययन करना चाहिये।
- समसामयिक घटनाओं के प्रश्नों की प्रकृति और संख्या को ध्यान में रखते हुए आप नियमित रूप से किसी दैनिक अख्भार जैसे - द हानिदू, राजस्थान पत्रका, दैनिक जागरण (राष्ट्रीय संस्करण), इत्यादि के साथ-साथ 'डृष्टि वेबसाइट' पर उपलब्ध करेंट अफेयर्स के बनिदुओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा इस खंड की तैयारी के लिये मानक मासिक पत्रका 'डृष्टिकरेंट अफेयर्स ट्रुडे' का अध्ययन करना लाभदायक सिद्ध होगा।
- इन परीक्षाओं में संस्थाओं इत्यादि से पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिये प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'भारत' (इण्डिया इयर बुक) का बाजार में उपलब्ध संक्षेपित विवरण पढ़ना लाभदायक रहता है।
- प्रारम्भिक परीक्षा तथिसे सामान्यतः 15-20 दिन पूर्व प्रैक्टिस पेपर्स एवं विभिन्न वर्षों में प्रारम्भिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को नियमित समय सीमा (सामान्यतः तीन घंटे) के अंदर हल करने का प्रयास करना लाभदायक होता है।
- इन प्रश्नों को हल करने से जहाँ विषय की समझ विकसित होती है, वही इन परीक्षाओं में दोहराव (रॉपीट) वाले प्रश्नों को हल करना आसान हो जाता है।

मुख्य परीक्षा की रणनीति:

- आर.पी.एस.सी. की मुख्य परीक्षा की प्रकृतिविरणनात्मक होने के कारण इसकी तैयारी की रणनीतिप्रारंभिक परीक्षा से भिन्न होती है।
- प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृतिजहाँ क्वालिफाइंग होती है, वही मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतमि मेधा सूची में जोड़ा जाता है। अतः परीक्षा का यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं काफी हद तक नियमित होता है।
- वर्ष 2013 में आर.पी.एस.सी. की इस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। नवीन संशोधन के अनुसार अब मुख्य परीक्षा में चार अन्वित विवरणपत्र (सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्नपत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्नपत्र और 'सामान्य हार्दि एवं सामान्य अंगरेजी') होते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी 'विज्ञप्ति' के अंतर्गत 'पाठ्यक्रम' शीर्षक में दी गयी है।
- हाल ही में आर.पी.एस.सी. की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्नपत्र में किये गए सूक्ष्म बदलाव के अंतर्गत प्रशासकीय नीतिशास्त्र में 'व्यवहार' एवं 'विधि' शीर्षक को भी जोड़ा गया है।
- मुख्य परीक्षा की प्रकृतिविरणनात्मक/विश्लेषणात्मक होती है, इसमें संक्षेपित, मध्यम और दीर्घ शब्द-सीमा वाले प्रश्न होते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आयोग द्वारा दी गयी उत्तर-पुस्तकों में नियमित स्थान पर नियमित शब्दों में अधिकतम तीन घंटे की समय सीमा में लिखिना होता है।
- नवीन संशोधनों के पश्चात आर.पी.एस.सी. की यह मुख्य परीक्षा अब कुल 800 अंकों की होती है, जिसमें प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये अधिकतम 200-200 अंक नियमित होते हैं।
- सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्नपत्र में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा और धरोहर से प्रश्न पूछे जाएँगे। अतः राजस्थान राज्य का विशेष अध्ययन कर उसके संक्षेपित नोट्स बनाने आवश्यक हैं।

- प्रथम प्रश्नपत्र में ‘भारतीय इतिहास एवं संस्कृता’ (प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत) के साथ आधुनिक वशिष्व का इतिहास भी शामिल है। इसके अलावा ‘अरथव्यवस्था’ (भारतीय अरथव्यवस्था, वैश्वकि अरथव्यवस्था एवं राजस्थान की अरथव्यवस्था) ‘समाजशास्त्र, प्रबंधन एवं लेखांकन एवं अंकेक्षण’ से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएंगे।
- स्पष्ट है कि राजस्थान वशिष्व के साथ प्रम्परागत पाठ्यक्रम का तथ्यात्मक एवं गहन अध्ययन आवश्यक है। साथ ही संक्षेपित व सारबद्ध लेखन-शैली के लिये सम्बन्धित प्रश्नों का अभ्यास एक आवश्यक शर्त है।
- द्वितीय प्रश्नपत्र में ‘प्रशासकीय नीतिशास्त्र’, ‘सामान्य वजिज्ञान एवं तकनीकी’, राजस्थान के वशिष्व सन्दर्भ में कृषि-वजिज्ञान, उद्यान-वजिज्ञान, वानकी, डेयरी एवं पशुपालन भी इस प्रश्नपत्र में शामिल हैं। अतः राजस्थान राज्य वशिष्व की अद्यतन एवं प्रम्परागत जानकारी आवश्यक है। साथ ही द्वितीय प्रश्नपत्र में पूछे जाने वाले ‘पृथ्वी वजिज्ञान (भूगोल एवं भू-वजिज्ञान)’ का अध्ययन वशिष्व, भारत एवं राजस्थान के सन्दर्भ में किया जाना आवश्यक है।
- सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्नपत्र में ‘भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, वशिष्व राजनीति एवं समसामयिक मामले’, ‘लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएँ, मुद्रे एवं गत्यात्मकता’ तथा ‘खेल एवं योग, व्यवहार एवं वधि’ सम्बन्धित है। इस प्रश्नपत्र की प्रकृति विश्लेषणात्मक होने के साथ-साथ अद्यतन सामग्री की मांग करती है। अतः अभ्यर्थियों को समाचार पत्र, मासिक पत्रकाओं व इंटरनेट के द्वारा सम्बन्धित घटनाक्रम का अद्यतन विवरण जानना आवश्यक है, जो प्रश्नों की प्रकृतिको समझने में सहायक होगा।
- मुख्य परीक्षा में चतुरथ प्रश्नपत्र भाषागत ज्ञान से सम्बन्धित है, जिसमें ‘सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी’ के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिन्दी के अंतर्गत जहाँ हिन्दी व्याकरण, संक्षेपितीकरण, पत्र-लेखन एवं नविंद लेखन शामिल है, वही सामान्य अंग्रेजी के अंतर्गत अंग्रेजी व्याकरण, कॉम्प्रहेशन, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग इत्यादि शामिल है। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी का स्तर सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। अतः इसका नियमित अभ्यास करना चाहयि।

⇒ नविंद लेखन की रणनीतिके लिये इस [Link](#) पर क्लिक करें

- परीक्षा के इस चरण में सफलता प्राप्त करने के लिये सामान्यतः 60-65% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठति, सूक्ष्म और सशक्त अभियक्ति को श्रेय मिलेगा।
- विद्यि है कि विरणनात्मक प्रकृतिवाले प्रश्नपत्रों के उत्तर को उत्तर-पुस्तकियों में लिखिना होता है, अतः ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखित समय लेखन शैली एवं तारतम्यता के साथ-साथ समय प्रबंधन पर वशिष्व ध्यान देना चाहयि।
- लेखन शैली एवं तारतम्यता का विकास निरितर अभ्यास से आता है, जिसके लिये विषय की व्यापक समझ अनविार्य है।

⇒ मुख्य परीक्षा में अच्छी लेखन शैली के विकास संबंधी रणनीतिके लिये इस [Link](#) पर क्लिक करें

साक्षात्कार की रणनीति:

- मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों (सामान्यतः वजिज्ञप्ति में वर्णित कुल रकितियों की संख्या का 3 गुना) को सामान्यतः एक माह पश्चात आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिये उपस्थिति होना होता है।
- साक्षात्कार कसी भी परीक्षा का अंतमि एवं महत्त्वपूर्ण चरण होता है।
- अंकों की दृष्टिसे कम लेकनि अंतमि चयन एवं पद निरिधारण में इसका वशिष्व योगदान होता है।
- आर.पी.एस.सी. की इस परीक्षा में साक्षात्कार के लिये कुल 100 अंक निरिधारित किया गया है।
- आपका अंतमि चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त किये गए अंकों के योग के आधार पर तैयार की गयी मेधा सूची के आधार पर होता है।

⇒ साक्षात्कार में अच्छे अंक प्राप्त करने संबंधी रणनीतिके लिये इस [Link](#) पर क्लिक करें